

KRITI INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

"CHETAK CHAMBERS", 4th FLOOR, 14, R.N.T. MARG, INDORE-1, (M.P.) INDIA PHONE No.: (91 - 731) 2719100. FAX: (91 - 731) 2704506, 4042118 REGD.OFF.: "MEHTA CHAMBERS", 34, SIYAGANJ, INDORE-452007 Phone: 2540963

E-mail: info@kritiindia.com Website: http://www.kritiindia.com

CIN: L25206MP1990PLC005732

22th July, 2019

To, The Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai (M.H.) 400 001

Subject: Newspaper clippings - Notice of 29th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Closure

Scrip Code: 526423

Dear Sir,

We are enclosing herewith the copy of newspaper clippings of Notice of 29th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure, published in Business Standard and Nai Dunia newspapers on 20th July, 2019.

This is for your information and record.

Thanking you, Yours truly,

For Kriti Industries (India) Limited

Preeti SharmaCompany Secretary Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

natural gas (CNG), biofuels and electric vehicles (EVs) for meeting its transportation needs, he added.

"Development of EV infra-

lion tonne per annum. Recent studies have shown that even with an aggressive EV rollout plan, India would need 450 million tonnes of refining capacity (by 2040)," he said.

month delay in awarding the work order for the processability study for technological upgrade at the refinery.

not in conformity with the conditions of environmental clearance granted for the mine operation.

Kasta Kriti Industries (India) Ltd.



Pipes & Fittings

CIN: L25206MP1990PLC005732 Regd. Office: Mehta Chambers, 34 Siyagani, Indore-452 007 Phone: 0731-2719100/ 26

E-mail: cs@kritindia.com, Website: kiil.kritiindia.com

Notice of The 29th Annual General Meeting, Remote E-voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of members of the Company will be held on Wednesday, August 14th, 2019 at 4:00 PM at 8th Floor, Brilliant Sapphire, Plot No.10, PSP, IDA Scheme No. 78, Part II, Indore (M.P.) to transact the following business as set out in the notice of the AGM

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance slip for 2018-19 have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) and physical copy has been sent to those members who have either not registered their e-mail lds or had requested for physical copy of the Report. The copy of Annual report is also available on the company's website www.kritiindia.com. The Documents pertaining to the items of Business to be transacted in the AGM are open for inspection to the registered office of the company during business hours on any working day upto the date of AGM.

CS Ishan Jain proprietor of M/s. Ishan Jain & Co., Company Secretaries, Indore (FCS 9978 CP 13032) has been appointed as the scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting by poll at the venue of AGM in a fair and transparent manner.

The company is pleased to provide the facility to members to exercise their voting by electronic means (remote e-voting) on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date Wednesday, August 07, 2019, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services Limited ('CDSL') https://www.evotingindia.com from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting'). A person whose name is recorded in the register of members or in the register of Significant beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date is entitled to vote avail the facility of remote e-voting as well as vote by poll at the AGM. All the members are informed that the

- The remote e-voting shall commence on Sunday, August 11, 2019 (9.00) A.M. IST); and will end on Tuesday, August 13, 2019 (5.00 P.M. IST)
- 2. The Cut-off date is fixed on Wednesday, the 7th August, 2019 for eligibility of participation and vote by Remote e-voting or vote by Poll at the AGM by the members whose names are registered in the Register of Members or in record of the CDSL and/ or NSDL as beneficial owner of the shares of the Company;
- 3. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, August 07, 2019, can also use remote e-voting facility as well as voting at meeting through poll. Such prospective shareholders may refer detailed procedure pertaining to e-voting, contained in "NOTES" in notice of the AGM posted on company's website www.kritiindia.com, on the website of BSE i.e. www.bseindia.com and also at CDSL's e-voting website www.evotingindia.com. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting your vote.
- Members may note that:
- a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL, beyond 5:00 P.M. IST on August 13,2019 and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- b) the facility for voting through polling paper shall be made available at
- c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
- d) a person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through polling paper;
- e) The Notice of AGM is available on the Company's website kritiindia.com/ notice/ and also on the CDSL website https://www.evotingindia.com;
- f) In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evotingindia.com or writes an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com call on Toll Free No.: 1800 22 5533 or contact our RTA M/s. Ankit Consultancy Pvt. Ltd., 60, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore (M.P.) 452010, Tel: 0731-4281333, 0731-1065797/99, Fax: 0731-4065798, e-mail: ankit_4321@yahoo.com

Further notice is given that:

Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Register of Members and share transfer book shall remain closed from Thursday, August 08, 2019 to Wednesday, August 14th, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the aforesaid 29th AGM.

> For Kriti Industries (India) Limited Sd/-Preeti Sharma

> > (Company Secretary)





L23109WB1960PLC024602 eb: www.pcblltd.com

larter Ended 30th June, 2019

(₹ In Crores except as otherwise stated)

Consolidated months Three months Three months Year nded ended ended Ended 6.2019 31.03.2019 30.06.2018 31.03.2019 (UnAudited) (UnAudited) (Audited) udited) 929.28 785.49 3,548.49 919.88 87.11 137.31 532.93 87.52 137.31 532.93 87.52 87.11 66.82 69.78 97.73 382.66 65.01 88.25 85.62 380.70 34.47 34.47 34.47 34.47 1,615.42 3.88 4.05 22.20 5.67

nded on 30th June, 2019 filed wth the Stock Exchanges esaid Results for the quarter ended on 30th June, 2019 d (NSE) (www.nseindia.com), Bombay Stock Exchange

> By Order of the Board Kaushik Roy Managing Director DIN: 06513489



Place: Indore Date: July 19, 2019

नईदुनिया 🕜

10 साल से हर दिन तय समय पर गरीबों को बांटते हैं 'सुकून की रोटी'

 गरीब मरीजों के परिजन का पेट भरने का सुफलाम अभियान बना सेवा का पर्याय

 एमवाय अस्पताल में पहले खिचडी बांट कर की थी शुरुआत

न भोजन का मीनू बदलता है,

इंदौर। नईदुनिया प्रतिनिधि

एमवाय अस्पताल में शाम ठीक साढ़े पांच बजे। एक मिनट भी न इधर न उधर। भोजन के पैकेट लेकर 'वे' अस्पताल परिसर के बाहर खड़े हो जाते हैं। चंद मिनटों में 400 पैकेट बंट जाते हैं। न दवाई, जांच से लेकर मुफ्त प्याऊ तक

इन दिनों अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों के लिए सुफलाम संस्था खेरखाह बन्दी हुई है। मरीज के पास दवाई खरीदने के कार नहीं हों या महंगी जीच के। संस्था द्वारा मुफ्त में दवाई -इजेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही नाममात्र के

शुक्क पर महंगी जांचे हो रही है। बंसल ने बताया कि हर माह करीब 6 लाख रूपए दवाई और आंचों पर खर्च हो रहे हैं। इसके अलाया अस्पताल में स्ट्रेचर, कील चेयर, प्राप्त और उपदेश तक कि मौत के बाद सफंद चादर तक दी जा रही है।

यहां भोजन की बुद्धदी कभी नहीं होती।
एमजाय अस्पताल में शुद्धदाज से
अने वाले गरीब मरीज के परिवन पैसो
है। बीर दस वर्षों में एमजाय अस्पताल
की गरी से परिवान है। उन्हें हैल प्रे में में सुपताल में स्वाचित पैसो
है। बीर दस वर्षों में एसजाय अस्पताल
की गरी से परिवान हो हैं। उन्हें हुए में ऐसा एक दिन में मूर्ती बीर्बाति कहा हो दो वस्त की रोटी का इंतजाम भी मुस्तिल

खिचड़ी वितरण से शुरू हुई थी परंपरा

जरूरतमंद को ही मिले, इसके लिए मरीज रूपरिजन का पास भी जाचते हैं। इसके पीछे यह महत्यह है कि जो लीग अपने प्रिय इंसान की बीमारी के कारण पहले ही परेशान है, उन्हें सुकून से भोजन करवाकर पेट भर सकें।

शैलंद्र बंसल, अशोक पुरोहित, डिंपल मैनी, राकेश श्रीमाल शाम को भोजन लेकर अस्पताल के बाहर तैयार रहते हैं। रोजाना 400 पैकेट भोजन वितरित होता है। बंसल कहते हैं कि दस वर्षों में न भोजन का मीनु बदला, न संख्या बदली। रोज दाल-चावल सब्बी रोटी ही भोजन में दिया जाता है। पैकंट देने से न तो वहां गंदगी होती है, न कचरा। जब व्यक्ति को भूख लगे, वह उस समय खा सकते हैं।

शेयर मार्केट कंपनी

में नौकरी करने वाली

युवती ने लगाई फांसी इंदौर। शेयर मार्केट कंपनी में नीकरी करने वाली युवती ने गुरुवार शाम फांसी लगाकर जान दे दी। विजय नगर थाना

पुलिस के मुताबिक मृतक रोशनी (21) पिता डोंडिया गवहाड़े निवासी शीतल

उत्तार का शुनाक प्रकार (21) विका श्रीहिया नावहाँ निवारी जोतान करते हैं । स्थित जीता करते हैं । स्थित ने बताया कि रोमानी मुद्दार खेतुन की राने वाली थी। पूम्बार रात मक्ता मास्तिक विवय रित की रोमानी की आत्माहत्या की अत्माहत्या की आत्माहत्या की अत्माहत्या की अत्माहत्य की अत्माहत्या की अत्माहत्या की अत्माहत्य की अत्माहत्या की

घर में शादी व्याह और दख में भी बंटा खाना शस बात यह है कि एमवाय अस्पता

के लिए जो पंकज पांडे भोजन बनाते किया। उनके घर में शादी ब्याह हो या किसी का देहांत हो गया हो फिर भी समय निकालकर भौजन वितरण के समय अस्पताल पहुंच ही जाते हैं।

प्रशासनिक संकुल के विद्युत सर्वर रूम में फॉल्ट, तारों में लगी आग

कार का कांच फोडकर बैग चुरा ले गए बदमाश

वनी पुरा ल गए बदानीश वंदेगी स्वाक्ता करा बेद में बरकामा एक पुत्रक को कर का कांच फोड़कर हो की पह सुवक्त को कर का कांच फोड़कर हो की पह ले हुए ले हुए। एक वैक में सोने-चारी के कोच्या ठीड़ होने कि करें है। तुकींगंक धाना पुरित्स में गुरुकार रात कि कांचा खाना पुरित्स में गुरुकार रात कि कांचा खाना पुरित्स में गुरुकार रात कि कांचा खाना खाना करें हो। तो को कांचा खाना करें हो। तो को कांचा खाना करें हो। तो खाना कर कांचा खाना कर करानी खा छोत करके कर कर कांचा खा कर सालीमार कोंगी? विविद्या कांचा खाना कर सालीमार कोंगी? कार का कांच फटा हुआ मिला।

गोली मारने पर 10 लाख और एक्सीडेंट में जान लेने पर पांच लाख में तय हुआ था सौदा

भाई की हत्या का बदला लेने के लिए सुपारी देने वाले सहित छह गिरफ्तार

डुवरा संदुत्तनया प्रतानकाथ मार्च जी हरवा का बदला देने के लिए खुड़ैंदर के किसार महे जान से मार्च की सुमार्यी देने वाले कॉलोनाइकर साहित कर क्रावमार्यों को क्रावमां होने को स्वार रात गिरम्पार किया है। यो साल गार्टन कॉलोनाइकर के मार्च विकास के मार्च ने वार लोगों से मार्च मिलकर रुपयों के लेगोंने में क्रावमां के मार्च मिलकर रुपयों के लेगोंने में हरवा कर दी थी, जिसका बदला देने के लिए कॉलोनाइकर ने आसीता के विस्तान भाई की हल्या की साहिका रची थी। उत्तर मुख्यों किंदन से हणा की साहिका रची थी। उसने सुपारी किलर से हत्या करने का सौदा किया था। उसने गोली मारने पर 10 लाख और एक्सीडेंट करके जान लेने पर पांच लाख रुपए देने का वादा किया था।

एसपी मुख्यालय अवधेश गोस्वामी बताया कि आरोपित कॉलोनाइजर डेढ़ लाख रुपए एडवांस ले लिए थे। इन रुपयों में से 50 हजार उसने खुद रख लिए थे। बाकी 50 हजार अमजद को, 30 हजार असलम को और 10-10 हजार रऊफ व मुख्तियार को दिए थे। मुख्तियार ने हत्या के लिए दो बार रैकी कर हबला को जानकारी दी थी। आरोपितों ने हत्या के बाद फरारी काटने के लिए रुपयों की



पुलिस गिरफ्त में आरोपित। **» नईदुनिया**

आरोपितों तक ऐसे पहुंची पुलिस

अस्तिपाली तक प्रमाणिक मुंबालिक में मुंबालिक में मुंबालिक में मुंबालिक में पूर्वान में मुंबालिक अवैध पिरटल, कट्टा, तलवार, चाकू राहित फालिया बरामद हुआ है। आरोधित हबला, असलम और मुख्तियार पर दर्जनीं

पुलिस को गुरुवार रात सूचना मिली थी कि जुनड बदमाश कंपेल गेड पर किसान सेवा केंद्र के पीछे बैठे हैं। इस पर क्राइम ब्रांच की सात लोगों की टीम ने दबिश देकर सभी को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद आरोपितों ने हत्या की साजिश का

खुलासा किया। अरोपित की जमानत नहीं हुई तो उसके भाई को मारने की रची

सं पहुंचा पुरारस अगर हत्या की प्रायस, लूट और आन्से शेर हत्या को प्रायस, लूट और आन्से एक्ट में जेल जा चुके हैं। हबला के खिलाक पुलिस ने रासुका की कार्रवाई भी की बा 1वह एक महीने पहले ही जेल से सुद्रा बा। आरोशित हबला ने एरोड़ मा इस्तोक में सरकारी जमीन पर अवैध करना कर प्लॉट काटे हैं। इन प्लॉटों को उसने किस्तों पर लोगों को दे दिया है, जिसके एवज में वह साबी बल्ला के साथ मिलकर वसूली करता है। पुलिस आरोपित हबला का मकान भी तोड़ चुकी है।

दीपक यादव की आरोपित कपिल पटेल ने चार साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। दीपक और कपिल के बीच रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। कपिल को छोड़कर बाकी बदमाशों की जमानत हो गई थी। वह लंबे समय से कपिल का जेल से बाहर आने समय से कार्यल का जात से बाहर जान का इंतजार कर रहा था। जब पता चला कि कपिल की जमानत नहीं हो रही है तो उसने कपिल के किसान भाई तूफान की हत्या करने का पड्यंत्र रचा। उसने असलम से भाई की हत्या का बदला

लेने का जिल्ला किया था। असलाम ने उसे इतला की स्मान्त की सिक्वाच्या। इतला में इतला की सुमान्त की सुमान्त की हता की सुमान्त की हता की सुमान्त की हता की सुमान्त की हता की सुमान्त की सिमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान की सुमान्त की सुमान्त की सुमान्त की सुमान की लेने का जिक्र किया था। असलम ने उसे था कि हादसे में किसान की मौत होने पर था कि हादस म किसान की मात हान पर कोई हत्या की शंका नहीं करेगा। इस पर किंद्र ने सीटे की राशि पांच लाख रुफ् कर दी थी। एक्सीडेंट करने के लिए सुगारी किलर ने रऊफ की गाद्धी का इंतजाम कर लिया था। रऊफ असलम

इंदौर। नईदुनिया प्रतिनिधि एसपी के बंगले में चोरी करने की नीयत

से बाउंड्रीवॉल फांदकर चोर घुस गया। बंगले में तैनात सिपाही ने उसे देखा भागने लगा। सिपाडी ने पीछा कर उसे मान लगा। स्पाहा न पहा कर उस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर उसे चकमा देकर भाग निकला। घटना के बाद आजाद नगर थाने पर सूचना दी गई। जवान और एएसआई ने जांच की। इसके

एसपी के बंगले में घुसे चोर को नहीं पकड़ पाया सिपाही रेडियो कॉलोनी में रात 2.30 बजे हुई घटना

> बाद जांच संयोगितागंज थाने को सींपी गई। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को केस दर्ज किया। घटना रेडियो कॉलोनी केस रुवं किया। घटना रेडियो कॉलोनी में बुधवार रात करीब 2.30 वर्ज एसमी मुख्यालय अवधेश गोस्वामी के बंगले में हुई थी। पुलिस के मुताबिक बदमाज चिड़ियायर से गोल चौराहे के समीप बनी बाउंड्रीबॉल के ऊमर चढ़कर एसपी

एक थाने ने की जांच और

इंदौर । प्रशासनिक संकुल (कलेक्टोरेट) की तल मंजिल पर विद्युत सर्वर रूम में शुक्रवार शाम करीब की पांच बजे फॉल्ट होने इब्बर 13 त्यारकार पहुंचते एक्स्यारहर जा भारता पर प्राप्ता स्वता कर कान वृक्ष्यार साम परंत्र बनाया के जाएर अन् से बायरों में आग तम गई। यहां के कर्मबारियों ने तत्कात और सुरक्षा उपकरणों से आग बुझा दी। विकर्ती का अधिक तोड हमे से यह फोट्ट हुआ। फॉट्ट से कार्यात्वय की विजरती बंद श्रेग मंद्र और कर्मबारी एरमेला हुए। यहारी भी संकृत की पहली मंजिल के बिजती सर्वार स्मा में वायरों में फॉट्ट हुआ था। इसके बाद अफरारों ने विजती लाइन चेक कराई थी। — **नर्बर्ट्रनिया**

गया। घटना के बाद सिपाही ने आजाद नगर थाने पर सूचना दी। एएसआई बैसाखू धुवें ने माम्स्ते की जांच की और सिपाही के बयान लिए। रिपोर्ट तैयार की

Kriti Kriti Nutrients Ltd. CIN: L24132MP1996PLC011245 Regd. Office: Mehta Chambers, 34, Siyagani, Indore-452 007 Phone: 0731-2719100/ 26 E-mai: cs@kritlindia.com, Website: knl kritlindia.

Kasta Kriti Industries (India) Ltd.

Pipes & Fittings CIN: L25206MP1990PLC005732
Regd. Office: Mehla Chambers, 34 Siyaganj, Indore-452 007 Phone: 0731-2719100/26
E-mail: cs@kritiindia.com, Website: kiii kritiine

Notice of The 29th Annual General Meeting, Remote E-voting Information and Book Closure

Remote E-voting Information and Book Closure
Notice is hereby given that the 28th Annual General Nessing (ACMI)
members of the Company will be held on Wednesday, Asigust 14t
2019 at 4:00 PM at 8th Flore, Filliant Sapphire, Pitch No.19, PI
2019 at 4:00 PM at 8th Flore, Filliant Sapphire, Pitch No.19, PI
2019 at 4:00 PM at 8th Flore, Filliant Sapphire, PI
2019 at 4:00 PM at 8th Flore, Filliant Sapphire, PI
2019 at 8th Flore, PI
2019 at 8t

Obestions (PhALS) for Immorrie and enhanced enhanced and enhanced and

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की केंद्र, जुर्माना इंद्रीश नईदुनिया प्रतिनिध गायी का प्रांश केंद्र दुकर्ज करने वाले को सान नकाकरण ने 10 साल कठोर को बालाज कि 2012 में बहर सलाहकर गायोगुक होने के याजबूद पीड़िया को पर्चाम अरोपित मंत्री नहें हुई तह भी गायोगुक होने के याजबूद पीड़िया को पर्चाम अरोपित मंत्रीन से हुई तह भी गायोगुक होने के याजबूद पीड़िया को पर्चाम अरोपित मंत्रीन से हुई तह भी

शादी का झांसा दिया और लगातार दुष्कर्म करता रहा। कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि इस तरह से धोखा देने वाले को किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती।

आरोपित पर अर्थरोड भी लगाया गया है। यह रकम पीड़िता को मिलगी। 8 अक्टूबर 2015 को पीड़िता ने महिला पुलिस थाने पहुँचकर आरोपित मनोज पिता राजेन्द्र निवासी लवन्कुश विकार इंटीर के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखवाई थी। पीड़िता ने पुलिस

उसी कंपनी में काम करता था। आरोपित मनोज ने पीड़िता से हिन्दू रीति-रिवाज से शादी करने की बात कही तो वह तैयार हो गई। उसने पीड़िता को सांवेर रोड क्षेत्र में गई। उत्तर पाड़िता का सावद राष्ट्र क्षेत्र में मकान किराए पर दिलावाया और शावी का झांसा टेक्टर कई बाट उसके साथ संबंध बनाए। इससे पीड़िता गर्भवती हो गई और 8 अगस्त 2014 को असने एक चन्ने को अन्त दिया। बाद में नजात की मीत हो गई। आरोपित को यह पता खाती वह पीड़िता को असेन्दा छोड़ कर चला तो वह पीड़िता को असेन्दा छोड़कर चला

पैरवी की। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने आरोपित मनोज को धारा बच्चे बाम में आरोपित मनोज को धारा 376 (2)(एन) में 10 वर्ष के कटों, कारमाह की बजा सुनाई। आरोपित पर पांच इकार रूपए अर्थहंड भी लगाया। यह एकस पीड़िता को मिलेगी। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि आरोपित ने आरोदित हैं हुए शासी का आरामसन देकर पहिला के साथ कर्ड यह दुकार्म किस्मा है। ऐसे प्रतिक के प्रति किसी तर का स्वर पर एउ अपनाने का स्वेहें अर्थिक्त का स्वर एउ अपनाने का स्वेहें अर्थिक्त का स्वर एउ

गवाहों को धमकाने वालों पर केस दर्ज

इंदौर। परदेशीपुरा थाना पुलिस ने गताहरें को धमकाने वालों को खिलाक केत दर्ज किया है। थानेदार राम शाकर ने बताया कि प्राचित निवासी शिवशांकि नगर को शिकायत पर नोश गादव, रोहन वादव, राहुल यादव सभी निवासी शिवशांकि नगर के खिलाफ केत दर्ज किया है। वाली सुवर्णा की शिकायत पर अञ्चात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपित दोनो फरियादियों को कोर्ट में गवाही नहीं देने के लिए धमका रहे थे।

पडोसी पर हमला करने वाला दंपती गिरफ्तार

इंदौर । इरिरानगर खाना पुलिस ने रेखा व गित राजेश गावज निवासी भाग्यलस्थी कॉलोनो को गिरफ्तार कर लिया टीआई राजीवसिंह भवीरिया के मुताबिक दंपती ने नी जुलाई को पड़ोसी महिला पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया था।

लकी डॉ में कार दिलाने का झांसा देकर महिला

सिपाही से लाखों ठगे इंदौर। लकी डॉ से इनाम में कार मिलने सिपाड़ी से लाखों रुपए ठग लिए। महिला िस्तामें से साओं जगर राग लिए। महिला की शिकारत पर क्राइम आंच ने जांच की और एसजी गाँड धाना पुलिस ने मुख्यत को केस राज किया। पुलिस के मुख्यति अगोपित नितिन कुसार, रांकर, अरण, गोरीहर तम्मी, कमारा गोगीई और तारन-गोगीई हीं, आंआरचे लाइन में पद्धव मुहिला क्राया आरखक मंजूलता तिवारी ने पुलिस को बाताचा कि उसके मोखहल पर होमा गाँची 18 की बेससाइट से मैसेज अप्याचा शास्त्री किया चालि कर उसके मोखहल आया था। इसमें लिखा था कि उसे लर्क ड्रॉ में 12.60 लाख रुपए की कार इना संपर्क किया और रजिस्ट्रेशन सहित अन्य शुल्क की मांग की। उन्होंने करीब 2.34 लाख खाते में जमा करवा लिए। रूपए लेने के बाद बदमाशों ने संपर्क खत्म कर लिया। सिपाही ने बैंक खाते की डिटेल, आरोपितों के मोबाइल नंबर व दस्तावेज त्रांच के लिए सौंपे थे। पुलिस उनकी त्रानकारी निकाल रही है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय : जहांगीराबाद, भोपाल निविदा सूचना (प्रथम आमंत्रण)

विषणन संद की ओर से आर.के.की.बाय. अंतर्गन सहकारिता विभाग के लिए विधियन स्थानों पर 200 मै. टन क्षमता गोदाम, इनपुर शॉप एवं ऑफिस ब्लॉक के निर्माण कार्यों की निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत पंजीयन व्यवस्था अंतर्गन लोक इत्पर होए एक आधारत स्वीकः । नामाण साता को नामाणातावान । नामाण कामा हो क्रायरहर पामाय स्वारता अस्मार सोक् नीमाणि हिमाम में प्रीवृद्ध केदली में E-E-Ender हणानी के अमंत्री कष्णकाम्बालस्वारहरूकाल पर किन्न Ohline प्रीवृद्धन दर के आधार पर निविद्यार दिस्सीक 16.08.2019 को शाम 05:30 बजे तक आमीज को जानी है। निविद्या प्रथम एवं आयं के संबंध में अन्य जानकारी एवं अनिवार्ष रति निविद्याकारों को मध्यप्रदेश शासन के ई-निविद्या के पोर्टन अष्णकामकार्या होने ।

新.	Tender Ref. No.	संभाग-इंदौर अंतर्गत स्थान एवं जिला	निविदा राशि लाख में	跖.	Tender Ref. No.		निविदा राशि लाख में
1.	358	धलकोट जिला-खरगीन	33.44	7.	364	पोखरकला जिला-खण्डवा	33.44
2.	359	जामुनिया जिला-धार	33.44	8.	365	सुक्ता जिला-खण्डवा	33.44
3.	360	दिग्ठान जिला-धार	33.44	9.	366	माछलिया जिला-झावुआ	33.44
4.	361	डेहरीउपईा जिला-धार	33.44	10.	367	पेटलावद जिला-झाबुआ	33.44
5.	362	रेशमगारा जिला-धार	33.44	11.	368	रावपुरिवा जिला-झावुआ	33.44
6.	363	दीवाल जिला-खण्डवा	33.44	12.	369	सारगी जिला-झाबुआ	33.44

मोट -- आवर्यक होने पर उपरंक्त निविद्य सूचना से संबंधित किसी मी प्रकार की सूचना अथवा संशोधन संबंधी जानकारी श्रेषण उपरोक्तानुसार पेटिल एवं वेबसाइट पर प्रदक्षित की जावेगी । म.ज. माध्यम-94545-2019 मुख्य अमियन्ता (सि.)